

ब्रेन इंटरनेशनल स्कूल

विषय- हिंदी

कक्षा- सात

Assignment अप्रैल-2021-22

प्रश्न-1 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए।

जब मैं वैयक्तिक और सामाजिक व्यवहार में अपनी भाषा के प्रयोग पर बल देता हूँ तब निश्चय ही मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि व्यक्ति को दूसरी अथवा विदेशी भाषाएँ सीखनी नहीं चाहिए । नहीं, आवश्यकता, अनुकूलता और शक्ति के अनुसार अनेक भाषाएँ सीखनी चाहिए तथा उनमें से एकाधिक में विशेष दक्षता भी प्राप्त करनी चाहिए, द्वेष किसी भी भाषा से नहीं करना चाहिए; क्योंकि किसी भी प्रकार के ज्ञान की उपेक्षा करना उचित नहीं है; किंतु प्रधानता सदैव अपनी ही भाषा और अपने साहित्य को देना चाहिए । अपनी संस्कृति, अपने समाज और अपने देश का सच्चा विकास और कल्याण केवल अपनी भाषा के व्यवहार द्वारा ही संभव है. ध्यान रखिए ज्ञान-विज्ञान, धर्म-राजनीति तथा लोक व्यवहार के लिए सदा लोक भाषा का प्रयोग ही अभीष्ट है । अपने देश, अपने समाज और अपनी भाषा की सेवा तथा वृद्धि करना सभी तरह से हमारा परम कर्तव्य है ।

1. दिए गए गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए।
2. अपनी भाषा के अतिरिक्त दूसरी भाषाएँ क्यों सीखनी चाहिए ?
3. तुलनात्मक रूप में अपनी भाषा को महत्व क्यों दिया जाना चाहिए ?
4. 'दक्षता' का एक पर्यायवाची शब्द लिखिए।
5. अपने देश और संस्कृति का विकास किस प्रकार संभव है ?

प्रश्न-2 निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

क) दादी माँ का व्यक्तित्व कैसा था?

ख) 'परिस्थितियों का वात्याचक्र जीवन को सूखे पत्तेसा नचाता है-' का अभिप्राय है।

ग) गाँव में क्वार के दिनों की क्या विशेषता होती है ?

घ) पक्षी पिंजरे में क्यों व्यथित हैं?

ड.) पक्षी अपने उड़ने के अधिकार को बचाने के लिए क्याक्या देने को तैयार - हैं?

च) नदियों की बाल लीला कहाँ देखी जा सकती है?

प्रश्न-3 निम्न भाषाओं की लिपियों के नाम लिखिए।

क) मराठी ख) उर्दू

प्रश्न-4 खाली स्थान भरिए।

क) अपने आस पास बैठे साथियों से मनुष्य भाषा द्वारा ही व्यवहार करता है।

ख) ----- लिपि में ही अवधि व संस्कृत भाषा भी लिखी जाती है ।

प्रश्न-5 निम्न शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखिए।

क) साहित्य ख) कल्याण

प्रश्न-6 निम्न शब्दों के दो - दो अनेकार्थक शब्द लिखिए।

क) हार ख) कर

प्रश्न-7 निम्न शब्दों को शुद्ध करके लिखिए।

क) समाजिक ख) मेघदुत

प्रश्न-8 कोरोना काल में मास्क पहनने के लाभ बताते हुए दादा जी को पत्र लिखें ।